

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 23, दिनांक 25.06.2021

थाना गोहन के ग्राम कुरसेडा के आशीष का अपहरण कर हुयी हत्या का थाना गोहन पुलिस व एसओजी व सर्विलांश की संयुक्त टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुये हत्या से संबन्धित 02 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में 02 अदद अवैध तमंचो के साथ गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त रिनॉल्ट लॉजी कार बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –

1. अजय उर्फ अल्ला यादव पुत्र अशोक यादव नि0 ग्राम बबाईन थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद
2. गोविन्द हरी उर्फ कल्लू पुत्र सौरभ राय नि0 ग्राम हसनपुर थाना रायगढ़ जनपद फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण –

1. 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
2. 3200 रूपये नगद
3. घटना में प्रयुक्त रिनॉल्ट लॉजी कार नं0 यूपी 83 ए ई 9991
4. मृतक का बैग जिसमें मृतक के कपडे पैनकार्ड आधार कार्ड, अन्य सामग्री

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.2021 को वादी मुकदमा श्री गनपत सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम कुरसैडा थाना गोहन जनपद जालौन की तहरीरी सूचना पर कि अपने भतीजे आशीष जो दिनांक 14.06.2021 को नौकरी करने के लिए फरीदाबाद गया था कि रात्रि में 00.30 बजे आशीष की माता के फोन पर काल आयी और आशीष ने स्वयं बताया कि कुछ लोगों ने मुझे पकड लिया है, 20 हजार रूपये नहीं दिये तो यह लोग मुझे मार देगे । दिनांक 15.06.2021 की सुबह पुनः 50000 हजार रूपये की मांग की गयी जिसके संबन्ध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध फिरौती के लिये अपहरण व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गोहन पर मु0अ0सं0 75/2021 धारा 364 A/506 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था ।

उक्त घटना के क्रम में दिनांक 18.06.2021 को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र पिलुआ जनपद एटा में एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है जिसकी शिनाख्त आशीष के रूप में उनके परिजनों द्वारा की गयी एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भादवि की बढोत्तरी की गयी ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में उक्त हत्या की घटना का शीघ्र ही सफल अनावरण करने के क्रम में एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर व माधौगढ़ के कुशल नेतृत्व में 07 टीमों का गठन किया गया था । जिसका सफल अनावरण कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

थाना गोहन पुलिस व एसओजी व सर्विलांश सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर रोड पर बने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के ओवर ब्रिज के नीचे 24.06.2021

को समय 23.30 बजे अभियुक्तगण को उनकी रिनॉल्ट लॉजी कार व अवैध असलाहात व कार में रखे मृतक के बैग आदि के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तगणों की घेराबन्दी के समय गिरफ्तारी से बचने हेतु अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से 02 फायर किये गये पुलिस टीम द्वारा अपनी प्रशिक्षण की सिखलाई का प्रयोग करते हुये एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुये उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 77/21 धारा 307/506 भादवि पुलिस मुठभेड एवं मु0अ0सं0 78/21 व 79/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुछतांछ मे गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुये बताया कि दिनांक 14/15.06.2021 की रात्रि में करीब 9.30 बजे शिकोहाबाद आगरा हाइवे पर एक लड़का अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था जिसे हम दोनो लोगो व मेरे दो अन्य साथियों (प्रदीप व सन्दीप) द्वारा इसी रिनॉल्ट कार से कट मार कर हाइवे पर गिरा दिया था और उसका अपहरण कर मोटर साइकिल को साथ ले गये थे उसके साथ मारपीट करते हुये उसके परिवारीजनों से उसे छोड़ने के एवज में 20000/- रूपये मृतक आशीष के पेटीएम में डलवाये थे वो रूपये हम लोगो ने जी टी रोड एटा स्थित पेट्रोल पम्प से निकलवा लिये थे बाद में पकडे जाने के डर से हम चारों ने मिलकर उसकी हत्या करके शव को पिलुआ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजपुर के पास जी टी रोड के किनारे झाडियों में फेक कर चले गये थे । आज हम लोग मृतक के परिजनो से उसे छोड़ने की फिरौती लेने हेतु फोन करके जालौन आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया है, व रिनॉल्ट लॉजी कार के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह गाडी हमारे साथी प्रदीप उर्फ भूरा पुत्र रविन्द्र यादव नि0 ग्राम जैतपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद की है एवं मृतक की मोटर साइकिल व उसका मोबाइल फोन आदि के सम्बन्ध में बताया गया कि हमारे साथी करुआ उर्फ सन्दीप यादव नि0 ग्राम जैतपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद के पास है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1-थानाध्यक्ष श्री राजीव बैस थाना गोहन | 11-का0 1107 रवि कुमार एस0ओ0जी0 |
| 2- उ0नि0 श्री कमलेश कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 | 12- का0 1036 गौरव बाजपेयी सर्विलांस सेल |
| 3- उ0नि0 श्री कुल भुषण सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल | 13- का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल |
| 4- उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना गोहन | 14- का0 1080 करमवीर सिंह सर्विलांस सेल |
| 5- हे0का0 80 निरंजन सिंह एस0ओ0जी0 | 15- का0 1539 रोहित रावत सर्विलांस सेल |
| 6- हे0का0 214 राजीव कुमार एस0ओ0जी0 | 16- चालक का0 पुनीत कुमार एस0ओ0जी0 |
| 7- हे0का0 280 अश्वनी प्रताप एस0ओ0जी0 | 17-का0 1943 अक्षय कुमार थाना गोहन |
| 8-हे0का0 167 मनोज कुमार सर्विलांस सेल | 18- का0 1941 पंकज यादव थाना गोहन |
| 9- का01664 विनय प्रताप एस0ओ0जी0 | 19-आरक्षी चालक तुलाराम थाना गोहन |
| 10- का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एस0ओ0जी0 | |